

To,  
BSE Limited,  
Department of Corporate Services,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001.  
Script Code:- 531946

Dated: 14-08-2024

**Sub: Information published in the Newspaper of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2024 as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Madam,

In pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2024, published in one English language daily newspaper and in one Hindi language daily newspaper.

Kindly update the same on your records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For and on behalf on  
Chadha Papers Limited**

Chadha Papers Limited



Whole Time Director

**Amanbir Singh Sethi  
Wholetime Director  
DIN: 01015203  
Address: CTC061 The Crest Park Drive,  
DLF5, Gurugram, Haryana-122011**

Encl: As Above



**बैंक ऑफ बरोडा**  
**Bank of Baroda**

**POSSESSION NOTICE**  
**(Rule 8 (1))**  
**(For Immovable Property)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(1)(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of Receipt of the said notice.

The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on below mentioned date.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda. The Borrower's/Guarantor's/Mortgagor attention is invited to provisions of Section 13 (6) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTY**

Name & Address of Borrower/Guarantor	Details of Immovable Property	Dr. of Demand Notice
<b>Railbazar Road Branch, Edohwa Highway Plaza Block-B, Udayapur, Raibazar Road, Lucknow-226025</b>	Equitable Mortgage of House No 592/38/153 (Municipal no.), measuring 1880 sq.ft., situated at Gopal Nagar, Ward Kharkia Teilbagh built on Kharsa No. 85, Lucknow, Owned by: Mr. Krishna Nand Bhatt, and interest thereon.	03.05.2024 12.08.2024 Rs. 18,29,996.64

**Place : Lucknow, Date: 14.08.2024** Authorised Officer, Bank of Baroda

**HIL LIMITED**  
CIN: L749991955PLC00056

**EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024**  
(IN ₹ Lakh except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	77515	72189	223085	110661	101550	337497
2	Net Profit/(Loss) for the period (before exceptional items, share of profit / (loss) of equity accounted investees and tax)	5794	7746	9582	2166	5162	(109)
3	Exceptional items	-	2265	3721	-	2265	3721
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items and share of profit / (loss) of equity accounted investees)	5794	10011	13303	2122	7363	3554
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items and share of profit / (loss) of equity accounted investees)	4259	7681	10298	1262	5786	3479
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	4259	7681	10284	1032	5560	3545
7	Equity share capital	757	756	757	757	756	757
8	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	118319	-	-	124527
9	Earnings per share (not annualised for the quarter) (par value of INR 10/- each)						
	Basic: (INR)	56.48	101.90	136.59	16.74	76.76	48.15
	Diluted: (INR)	56.48	101.88	136.59	16.74	76.74	48.15

**Note:** The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of HIL Limited ("the Company") for the quarter ended June 30, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid results along with notes are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and Company's website at www.hil.in

By order of the Board  
HIL Limited  
Sd/-  
Akhshay Seth  
Managing Director & CEO  
DIN: 10038620

Place: New Delhi  
Date: August 13, 2024

CHARMINAR | BIRLA AERODIN | BIRLA | HIL PIPE | BIRLA | HIL PUTTY | BIRLA | HIL CEMENT | PARADOR

Regd. Office: Office No. 1 & 2, 7 Floor, SLR Terminus, Survey No. 133, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana.  
Ph: +91 40 88249000 | Email: cs@hil.in | Website: www.hil.in

**FORM NO. 5**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW**  
99/1, University Road, Near Hanuman Sani Mandir, Lucknow-226 007  
(Area of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh)

**Summons for Filing Reply & Appearance by Publication**  
Date: 09.08.2024

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rule, 1993)

**Original Application No. 429 of 2023**

**PUNJAB NATIONAL BANK** \_\_\_\_\_ **APPLICANT**

**VERSUS**

**Mr. Abhishek Srivastava & Others** \_\_\_\_\_ **DEFENDANTS**

1. Smt. Abhishek Srivastava adult by age son of Late Sh. K. L. Srivastava, resident of House No. 567/14, Anand Nagar Ward, Guri Goward Singh Nagar, Jail Road, Also at 1st Floor, City Point, 3 Way Lane, Raja Ram Mohan Marg, Lucknow 226001.

2. Smt. Neeta Srivastava Adult by age, resident of House No. 567/14, Anand Nagar Ward, Guri Goward Singh Nagar, Jail Road Also at 1st Floor, City Point, 3 Way Lane, Raja Ram Mohan Marg, Lucknow 226001.

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavit (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after Publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **30.08.2023 at 10.30 A.M.** failing which application shall be heard and decided in your absence.

Registrar  
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

**कनरा बैंक**  
**Canara Bank**  
कनरा बैंक का चयन  
भारत सरकार का चयन  
भारतीय सरकार का चयन

**आलम्बना साक्षा**

अलम्बना साक्षा  
सुविधा विभाग द्वारा है कि सभी को सम्बन्धित सम्पत्ति भुगतान, बरखा मी 1508 का निम्नलिखित विवरण दम्बर-केबु (पारा), वार्ड-आम नगर, बिला उपनगर, रक्षा 74.349 वर्गमीटर है. निम्नलिखित नीचे संतोष सहित पुत्र कर्तव्य लाल मरीचि निधि (प्राप्त) / 505, रोड-नरी, कुरी रोड, नगर सलीम, अलीगढ़, बिहार उपनगर के पास में बरखा है जो विभा 08/102/14 को प्रस्ताव-1, वार्ड- 10097, प्लॉट 10/1/124, प्रस्ताव-मि 135/18, जे प्रोत्साहन पैसा प्रस्ताव नरु (पूरा) का  
प्लॉट नं. 135/18, जे प्रोत्साहन पैसा प्रस्ताव नरु के कारण अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।  
कुल मूल बरखा सिमेन्ट पर सिमेन्ट पर दे दे के कट करके बैंक इस सम्बन्ध में भीमान जी को सूचना देकर प्रस्ताव दे रहा है।

प्रार्थी  
केनरा बैंक साक्षा आलम्बना बिला उपनगर

**Important Notice**

That public in general hereby informed that the Nagar Nigam House No. LS1/002 built on Plot No. LS-1/2, situated at Sector-A, Sitapur Road Scheme, (Nagar Nigam Ward-Bharanatha Harsh Chandra) Lucknow, measuring 74.48 sq.mts, in respect of original lease deed dated 09.02.1988, document No. 4571 has been lost by present owner Smta Kam Mishra. The report of loss of records has been registered. The current owner wants to sell his property to Smt. Usha and possibly the buyer Smt. Usha will take a loan by mortgaging this property in State Bank of India. If any person or financial institution has any objection regarding the original lease deed dated 09.02.1988, document No. 4571 related to the above mentioned property, then they can contact the address and phone number given below, please registered your claim within 15 days, Contact: State Bank of India, RACPC, Gombi Nagar, Lucknow, Mob. No. 8545007971, 7995695613 otherwise the above said property deemed to be free from all encumbrances.

**FORM NO. 1**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW**  
600/1, University Road, Near Hanuman Sani Mandir, Lucknow-226 007  
(Area of Jurisdiction part of Uttar Pradesh)

**DRC No. 1062/2023/LKO**  
**NOTICE UNDER RULE -2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 203 OF RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993**  
HDFC BANK LTD. Vs. Mrs. Mahdi and others

To, 1. J.D. No.4- Smt. Tamanna Hasan wife of Sri Ravi Hasan, resident of 336/052 B, Pul Gulam Husain, Sadashahar, Lucknow-226003 (UP)

1. This is to notify that a sum of Rs.20,13,930/00 (Rupees Twenty Lacs Thirteen Thousand Eight Hundred Eighty only) with interest @12% per annum with monthly rest from the date of filing of the Original Application, i.e. 14.03.2022, till the sum fully liquidated, jointly and severally with cost from the judgment date, i.e. 1.3.24 has become due as per certificate bearing No. 1062/2023 dated 17.01.2023 in O.A. No. 312/2022, passed against you by DRT Lucknow.

2. You are hereby directed to pay within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts & Bankruptcy Act, 1993.

3. You are hereby ordered to deposit on affidavit the particulars of asset on or before 03.10.2024.

4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 03.10.2024 at 10.30 AM.

5. In addition to the sum aforesaid you will be liable to pay

**Detail of Cost**

Application Fee:	Rs. 25,000/-
Advocate Fee:	Rs Not Claimed
Publication charges:	Rs Not Claimed
Misc. Expenses:	Rs Not Claimed
Clerical:	Rs Not Claimed

Given under my hand and the Seal on this 15<sup>th</sup> DAY of August, 2024

RECOVERY OFFICER DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW

**Statement of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter Ended 30/06/2024**  
(See Regulation 47(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended		Quarter ended	Quarter ended		Quarter ended
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1.	Total Income from Operations	10,657	6,310	20,247	10,411	NA	21,121
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,139	195	660	1,141	NA	664
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,138	185	660	1,141	NA	664
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	906	162	548	909	NA	587
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	906	162	554	909	NA	594
6.	Paid Up Equity Share Capital	912	912	912	912	NA	912
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	6,679	5,387	5,773	6,722	NA	5,813
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted (not annualized)	9.94	1.78	6.01	9.97	NA	6.45

**Notes:** (1) The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter ended June 30, 2024, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Guidelines 2015. (2) The full format is available on Company Website www.upal.in. (3) The above results were reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings held on August 13, 2024. (4) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. (5) Previous year figures have been regrouped/re-stated where necessary. (6) Umbuja Bever Pvt. Ltd. transitioned into a wholly owned subsidiary of U.P. Adhesives Ltd. on 02.09.2023, resulting in no figures for June 2023.

By order of the Board  
Sd/-  
Managing Director

Place: Lucknow  
Date: 13.08.2024

**RICO** Made in India with Pride

**RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED**  
Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram -122 001, Haryana (INDIA)  
Tel: 0124 2824000, Fax: 0124 2824200, email: cs@ricogroup.in  
Website: www.ricoauto.in, CIN: L34300HR1983PLC023187

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Revenue from Operations	392.07	426.28	1,653.06	539.67	533.91	2,159.73
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	3.88	9.85	43.02	6.98	9.38	60.01
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	3.70	8.49	40.44	6.80	8.02	57.43
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	3.43	5.59	30.85	5.64	5.71	38.94
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2.42	8.25	33.59	4.63	8.34	41.52
6.	Equity Share Capital of Rs.1/- each	13.53	13.53	13.53	13.53	13.53	13.53
7.	Earning Per Share (as not annualised) - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	0.25* 0.25*	0.41* 0.41*	2.28 2.28	0.42* 0.42*	0.42* 0.42*	2.88 2.88

**NOTES:**

1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 13th August, 2024.

2. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024, filed with the Stock Exchanges on 13th August, 2024 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.ricoauto.in.

Place: Gurugram  
Date: 13th August, 2024

For RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED  
Sd/-  
Arvind Kapur  
Chairman, CEO & Managing Director  
DIN: 00096308

**CHADHA PAPERS LIMITED**  
REGD. OFFICE - CHADHA ESTATE, NANITA, ROAD, BILASPUR, RAIPUR, UTTAR PRADESH-240021 (UP)  
CIN: L21012UP190XPLC011878 | Ph: 0120-4120849, 4216287, 4106160, Fax: 0120-4106181  
Email: chadhapapers@gmail.com | Website: www.chadhapapers.com

**EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024**  
(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended		Quarter ended	Quarter ended		Quarter ended
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)
1.	Total Income from Operations	19584.61	17956.48	18505.49	69931.79	15634.61	17066.48
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	432.45	1277.11	2893.90	5073.55	432.45	1228.48
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	432.45	1277.11	2893.90	5073.55	432.45	1228.48
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	318.39	920.66	2154.52	3728.64	318.39	871.94
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	318.06	919.23	2154.52	3727.31	318.06	870.61
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1020.40	1020.40	1020.40	1020.40	1020.40	1020.40
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 1. Basic: 2. Diluted:	3.12	9.02	21.11	36.54	3.12	8.55
		3.12	9.02	21.11	36.54	3.12	8.55

**Notes:**

1. The above financial results (Standalone & Consolidated) have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12th August, 2024.

2. The above financial results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2024 have been reviewed by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

3. As the Company has a single reportable segment, the segment wise disclosure requirement of Ind AS 109 on operating segment is not applicable to it.

4. Financial Results for this period have been prepared and presented in accordance with the recognition and measurement principles of Ind AS 34 Interim Financial Reporting and Previous Year/Quarterly Figures have been regrouped/rearranged/re-stated wherever necessary.

5. Losses pertaining to part of factory land at Bilaspur (Raipur) where the paper manufacturing unit is located, has occurred. The said and pending to promoters and the family members was on lease for a period of 30 years since 1997. The manager is absent of the matter and in process of getting the lease renewed. The company has not received any communication from the lessors for eviction thereof and therefore, there is no material implication on the operations of the company.

6. The company has only one wholly-owned non-material subsidiary company. During the quarter ended 30.06.2024, the subsidiary company did not have any operations. Therefore, the financial information of subsidiary Co has not been included in the consolidated financial results. The use of the previous quarter's financial information does not have any material impact on the financial position or performance of the consolidated entity.

7. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Unaudited (Standalone & Consolidated) Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chadhapapers.com).

Place: Delhi  
Date: 12.08.2024

Ambarish Singh Sethi  
Whole Time Director  
DIN: 01010303

Address: CTC661 The Crest Park Drive, DLF5, Gurugram, Haryana-122011